



### कोविड-19 के दौरान 15 जून से ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सेवा में बदलाव

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 जून, 2020) – सिटी को दुबारा खोलने और रिकवरी योजना के हिस्से के तौर पर, सोमवार, 15 जून से, अगले नोटिस तक, बस सेवा में नीचे दिए गए बदलाव किए जाएंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा ट्रांज़िट सिस्टम, लोगों को सिटी में अच्छी तरह से गतिशील रख सकता है, 15 जून से शुरू करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) के रूट चालू हो जाएंगे। हमारे पास जितने भी ऑपरेटर उपलब्ध हैं, उनके साथ इन बस सेवाओं को कायम रखने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

- 501 ज़ूम क्वीन (501 Züm Queen)
- 502 ज़ूम मेन (502 Züm Main)
- 511/511A ज़ूम स्टील्स (511/511A Züm Steeles)
- 1/1A क्वीन (1/1A Queen)
- 2 मेन (2 Main)
- 3 मैकलॉगलिन (3 McLaughlin)
- 4/4A चिंगकूज़ी (4/4A Chinguacousy)
- 5/5A बोवेअर्ड (5/5A Bovaird)
- 6 जेम्स पोटर (6 James Potter)
- 7/7A कैनेडी (7/7A Kennedy)
- 8 सेंटर (8 Centre)
- 9 वोडन (9 Vodden)
- 10 साउथ इंडस्ट्रियल इंडसट्रीअल (10 South Industrial)
- 11/11A स्टील्स (11/11A Steeles)
- 14/14A टोरब्रैम (14/14A Torbram)
- 15 ब्रैमली (15 Bramalea)
- 18 डिक्सी (18 Dixie)
- 20/20A ईस्ट इंडस्ट्रियल (20/20A East Industrial)
- 23 सैंडलवुड (23 Sandalwood)
- 26 माउंट प्लैज़ेंट (26 Mount Pleasant)
- 29 विलियम्स पार्कवे (29 Williams Parkway)
- 30 एयरपोर्ट रोड (30 Airport Road)



- 31 मैकवीन (31 McVean)
- 35 क्लार्कवे (35 Clarkway)
- 50 गोर रोड (50 Gore Road)
- 51 हैरफोर्ड (51 Hereford)
- 52 मैकमर्ची (52 McMurphy)
- 53 रे लॉसन (53 Ray Lawson)
- 56 किंगनोल (56 Kingknoll)
- 57 चारोलेस (57 Charolais)
- 60 मिसिसागा (60 Mississauga)
- 115 पियर्सन एयरपोर्ट एक्सप्रेस (115 Pearson Airport Express)

कोविड-19 (COVID-19) की वजह से, सीनियर आई.डी. (Senior ID) और वेटर्न (Veteran) कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं। सवारियां अगले नोटिस कर, अपने एक्सपायर हुए कार्डों का उपयोग करना जारी रख सकती हैं।

सवारियों को याद दिलाया जाता है कि टर्मिनल्स में ग्राहक सेवा (Customer Service) काउंटर बंद हैं। ब्रैमली (Bramalea), ब्रैम्पटन गेटवे (Brampton Gateway) और डाउनटाउन (Downtown) टर्मिनल्स में टर्मिनल की बिल्डिंग का समय, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है।

इस समय जिन रूट्स पर सेवा चालू है, उनकी और उनके शेड्यूल की सूची के लिए [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) पर जाएं।

### कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

पब्लिक ट्रांज़िट पर मास्क पहनने की, पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) की सलाह का पालन करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों को पुरज़ोर सलाह दी जाती है कि वे इस समय, बसों पर और टर्मिनल्स पर गैर-मेडिकल (कपड़े के बने साधारण मास्क) मास्क पहनें। ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों और ऑपरेटर्स के लिए, 2 जुलाई से बसों और टर्मिनल्स पर गैर-मेडिकल मास्क पहनना जरूरी होगा, तब उनके लिए पहले की तरह किराया देना जरूरी होगा और वे आगे के दरवाजे से चढ़ पाएंगी। अधिक जानकारी के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें।



सिटी, सवारियों से अनुरोध करती है कि वे टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर, मास्क पहनकर भी, लगातार शारीरिक दूरी कायम रखें। सवारियों को यह भी याद दिलाया जाता है कि वे हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कोविड-19 के कारण, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

-30-

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)